

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			दिसं. 27	नव. 28		
		1	2	3	4	%
I. बैंक ऋण (II+III)	18243972	17743037	19527313	20322515	11.4	14.5
II. खाद्यान्न ऋण	36531	56139	79801	87972	140.8	56.7
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	18207441	17686899	19447512	20234543	11.1	14.4
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2287060	2239028	2417050	2509224	9.7	12.1
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3985660	3893504	4219433	4413257	10.7	13.3
2.1 सूक्ष्म और लघु	798473	778529	952302	1020007	27.7	31.0
2.2 मध्यम	363245	350739	397098	422441	16.3	20.4
2.3 बड़े	2823942	2764237	2870032	2970809	5.2	7.5
3. सेवाएं	5093565	4905686	5359639	5654179	11.0	15.3
3.1 परिवहन परिचालक	261575	255608	276292	253187	-3.2	-0.9
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	32915	31582	40914	42275	28.4	33.9
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	83366	80492	92182	96721	16.0	20.2
3.4 शिपिंग	7304	7102	10675	10457	43.2	47.2
3.5 विमानन	46072	45998	48649	51012	10.7	10.9
3.6 पेशेवर सेवाएं	195957	189579	202814	210379	7.4	11.0
3.7 व्यापार	1184550	1107395	1230778	1300841	9.8	17.5
3.7.1 थोक व्यापार ¹	646099	580890	657179	708140	9.6	21.9
3.7.2 खुदरा व्यापार	538451	526505	573600	592701	10.1	12.6
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	523264	512114	570144	590850	12.9	15.4
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	1635102	1621001	1723493	1865190	14.1	15.1
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	323182	319955	346320	352976	9.2	10.3
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	228678	218657	253237	291503	27.5	33.3
3.10 अन्य सेवाएं ³	1123459	1054817	1163697	1233266	9.8	16.9
4. व्यक्तिगत ऋण	5971696	5812624	6486418	6648250	11.3	14.4
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23201	23794	23028	22569	-2.7	-5.1
4.2 आवास	3010477	2931739	3195341	3256351	8.2	11.1
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	141842	141575	147076	163243	15.1	15.3
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	10080	9791	9752	10194	1.1	4.1
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	284366	291087	296070	294068	3.4	1.0
4.6 शिक्षा	137456	133139	149800	152789	11.2	14.8
4.7 वाहन ऋण	622793	613296	680536	714631	14.7	16.5
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण ⁴	206284	168128	358645	382706	85.5	127.6
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1535197	1500075	1626170	1651698	7.6	10.1
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ⁵	2287794	2236648	2433930	2554979	11.7	14.2
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁶	2239409	2145252	2588509	2755699	23.1	28.5
(iii) मध्यम उद्यम ⁷	601451	575433	648766	679642	13.0	18.1
(iv) आवास	746651	751317	992100	1028285	37.7	36.9
(v) शिक्षा ऋण	62826	62993	74051	77388	23.2	22.9
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	10325	8035	11555	11323	9.7	40.9
(vii) सामाजिक अवसंरचना	1316	999	1060	1277	-3.0	27.8
(viii) निर्यात ऋण	12479	12455	11052	10749	-13.9	-13.7
(ix) अन्य	49552	55138	41797	42822	-13.6	-22.3
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1864606	1748608	1944735	2001782	7.4	14.5

टिप्पणियाँ:

- (1) आंकड़े अनंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े सेक्शन-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करते हैं, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करते हैं।
- (2) With effect from December 31, 2025, definition of last reporting fortnight has been changed to the last day of the month under the Banking Laws (Amendment) Act 2025. Accordingly, the y-o-y growth rates from December 2025 onwards are based on end-of-month data for the current year and data for the last reporting fortnight (as per old definition) for the corresponding month of the previous year.
- 1 थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।
- 2 एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
- 3 "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएं शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।
- 4 एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।
- 5 प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
- 6 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
- 7 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।